

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 अगस्त 2018 — भाद्रपद 2, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2018

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-5/2013/1-7. — जिला बस्तर के दरभा थाना तर्गत जीरमघाटी क्षेत्र में दिनांक 25-05-2013 को घटित नक्सली हिंसा की घटना की न्यायिक जांच के लिये इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-05-2013 द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, उच्च न्यायालय बिलासपुर की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है. आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण न होने के कारण विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-07-2013, 20-02-2014, 06-09-2014, 25-02-2015, 31-08-2015, 23-02-2016, 17-08-2016, 06-02-2017, 21-08-2017 तथा 12-02-2018 द्वारा आयोग के कार्यकाल में समयावृद्धि की गई है, जो दिनांक 27-08-2018 को समाप्त हो रही है.

2. चूंकि, जांच आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अतः राज्य शासन एतद्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 28-08-2018 से दिनांक 27-02-2019 तक 06 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.